



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, सितम्बर 13-सितम्बर 19, 2009, शनिवार/भाद्र 22-भाद्र 28, 1931
No. 35] NEW DELHI, SEPTEMBER 13-SEPTEMBER 19, 2009, SATURDAY/BHADRA 22-BHADRA 28, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खेल प्रशिक्षण और खेल निरीक्षक (भर्ती) नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग में खेल प्रशिक्षकों और खेल निरीक्षकों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (खेल प्रशिक्षक और खेल निरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित

अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कालम (5) से कालम (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहताएं—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान बैंड वेतनमान तथा ग्रेड पे	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. खेल प्रशिक्षक	5* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं, समूह 'ग' अनुसूचिवीय	वेतन बैंड 1 5200-20200 + 2800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधी भर्ती हेतु आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(8)			(9)		(10)	
लागू नहीं			लागू नहीं		लागू नहीं	
भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता				प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया किया जाएगा		
(11)				(12)		
प्रतिनियुक्ति पर				डाक विभाग के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हों; अथवा		

(12)

(ii) नियमित आधार पर, नियुक्ति पश्चात् 5200-20200 रु. + 2400 रु. के ग्रेड वेतन में तीन वर्षों की नियमित सेवा या मूल काडर या विभाग में समतुल्य पद धारण किया हो; अथवा

(iii) नियमित आधार पर, नियुक्ति पश्चात् 5200-20200 रु. + 1900 रु. के ग्रेड वेतन में पांच वर्षों की नियमित सेवा या मूल काडर या विभाग में समतुल्य पद धारण किया हो; और

(ख) निम्नलिखित अर्हता प्राप्त हो :

(i) राष्ट्रीय खेल संस्थान (पूर्ण कोर्स) या किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय फेडरेशन या एसोसिएशन द्वारा प्रदान अर्हता प्राप्त कोच का सर्टिफिकेट;

(ii) संबंधित खेल या विद्या में तीन वर्ष का कोचिंग अनुभव; और

(iii) अखिल भारतीय डाक या डाक एवं तार टूर्नामेंट में सक्रिय या क्षेत्र की ओर से कम से कम 3 बार प्रतिनिधित्व किया हो या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में डाक एवं तार या राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसका गठन किस प्रकार है

वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

(13)

(14)

लागू नहीं

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 खेल निरीक्षक	7* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं, समूह 'ग' अनुसूचित्वीय	वेतन बैंड 1 5200-20200 + 2800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

(11)

(12)

प्रतिनियुक्ति पर

डाक विभाग के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर :

(क)(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; अथवा

(12)

(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति पश्चात् 5200-20200 रु. + 2400 रु. के ग्रेड वेतन में तीन वर्षों की नियमित सेवा या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद धारण किया हो; अथवा

(iii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5200-20200 रु. + 1900 रु. के ग्रेड वेतन में पांच वर्षों की नियमित सेवा या मूल काडर या विभाग में समतुल्य पद धारण किया हो; और

(ख) निम्नलिखित अर्हता प्राप्त हो :

(i) राष्ट्रीय खेल संस्थान या किसी संबंधित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संबंधित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल फेडरेशन द्वारा प्रदत्त किसी भी खेल में अर्हताप्राप्त तकनीकी सरकारी रेफरी या अम्पायर या कोच का सर्टिफिकेट ।

(ii) अखिल भारतीय डाक या डाक एवं तार क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में कम से कम दो वर्षों का संगठनात्मक अनुभव;

(iii) अखिल भारतीय डाक या डाक एवं तार प्रतियोगिताओं में सर्किल या क्षेत्रीय स्तर पर कम से कम तीन बार प्रतिनिधित्व किया हो या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में डाक एवं तार या राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो ।

वांछनीय :

केन्द्रीय या सर्किल खेल बोर्ड का सदस्य हो ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)

लागू नहीं

(14)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं ।

[फा. सं. 6-02/2009-कल्याण एवं खेल]

सुभाष चन्द्र, निदेशक (कल्याण एवं खेल)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

New Delhi, the 15th September, 2009

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sports Coaches and Sports Inspectors (Recruitment) rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sports Coaches and Sports Inspector in the Department of Posts, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Posts (Sports Coaches and Sports Inspectors) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay band, pay Scale and grade pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sports Coaches	5* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial	PB-1 Rs. 5200-20200+ Grade Pay of Rs. 2800	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any
(8)				(9)		(10)
Not applicable				Not applicable		Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made		
(11)				(12)		
Deputation				Deputation from among officials of the Department of Posts : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or		

3251 4709-2

(12)

(ii) with three years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Scale of Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with five years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Scale of Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 1900 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following qualifications:

(i) Certificate as a qualified coach issued by the National Institute of Sports (full Course) or by the recognised National Federation or Association;

(ii) Three years coaching experience in the game or discipline; and

(iii) have represented the Circle or Region for a minimum of three times in All India Postal or Posts & telecommunications tournaments or has represented Posts or Posts & Telecommunications or a State in the National Championships.

Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Sports Inspectors	7*(2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial	Pay band-1 Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay of Rs. 2800/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)

(9)

(10)

Not applicable

Not applicable

Not applicable

(11)

(12)

Deputation

Deputation from among officials of the Department of Posts :
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(12)

(ii) with three years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Scale of Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with five years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Scale of Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following qualifications:

(i) Certificate as a qualified technical official referee or Umpire or coach in any game issued by the National Institute of Sports or respective National or International Institute of Sports or respective National or International Sports Federation;

(ii) Organisational experience of atleast two years in holding All India Postal or Posts & Telecommunications Regional Tournaments; and

(iii) have represented the Circle or Region for a minimum of three times in All India Postal or Posts & Telecommunications competitions or has represented Posts or Posts & Telecommunications or a State in the National Championship.

Desirable : Has been a member of the Central or Circle Sports Board.

Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(13)

Not applicable

(14)

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 6-02/2009-Welfare & Sports]

SUBHASH CHANDER, Director (Welfare & Sports)

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, पशुपालन अधिकारी समूह “क” पद भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, पशुपालन अधिकारी समूह “क” पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, पशुपालन अधिकारी समूह “क” पद भर्ती नियम, 2007 की अनुसूची में, क्रम संख्या 3 और उपायुक्त (पशुपालन) के पद से संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------	------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप आयुक्त (पशुपालन)	6* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय।	15,600-39,100+ (7600 रु. ग्रेड वेतन)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा
(11)	(12)

66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके ने होने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति :

10000-15200 रुपए के वेतनमान में ऐसा सहायक आयुक्त (पशुपालन), जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(12)

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 10,000-15,200 रुपए या समतुल्य वेतनमान में पद पर नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है;

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

आवश्यक :

(i) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री ।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य ।

(iii) गोपशु और पशुधन विकास या कुक्कुट या पशु स्वास्थ्य या मांस और मांस उत्पादों में 10 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय योग्यताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के किसी भी क्षेत्र में डाक्टरेट की डिग्री या समतुल्य ।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

किसी अधिकारी की प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), नियुक्ति करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. पशुपालन आयुक्त —सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य
4. संयुक्त सचिव (पशुपालन), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य

[फा. सं. ए-12018/3/2003-प्रशासन-1]

325/457-9-3

पी. एल. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 10th September, 2009

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Animal Husbandry Officers Group "A" posts Recruitment Rules, 2007, namely :—

(1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Animal Husbandry Officers Group "A" posts Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Animal Husbandry Officers Group "A" Posts Recruitment Rules, 2007, in the Schedule, against serial No.3 and the entries relating to the post of Deputy Commissioner (Animal Husbandry), the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deputy Commissioner (Animal Husbandry)	6* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 15600-39100+ (Rs. 7600 Grade Pay)	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any
(8)				(9)		(10)
Not applicable				Not applicable		Not applicable
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(11)				(12)		
66.67% Promotion failing which by deputation including short term contract 33.33% Deputation including short term contract.				Promotion : Assistant Commissioner (Animal Husbandry) in the pay scale of Rs. 10000-15200 with five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion. Their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by		

(12)

more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including short term contract) : Officers under the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations or Agricultural Universities or recognised Research Institutions or Councils:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre, or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000—15200 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential :

i) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry as listed in the first and second Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984.

ii) Post Graduate Degree in any branch of Veterinary Science and Animal Husbandry from recognised University or equivalent.

iii) Ten years experience in the Cattle and Livestock Development or Poultry or Animal Health or Meat and Meat Products.

Desirable Qualification :

Doctorate Degree in any field of Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised University or Institution or equivalent.

Note : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation or contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application].

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—

1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman
2. Animal Husbandry Commissioner —Member
3. Joint Secretary (Admn.), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member
4. Joint Secretary (Animal Husbandry) Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on promotion or deputation (including short term contract).

[F. No. A-12018/3/2003-Admn. I]

P. L. MEENA, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 136.—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में पुनः संशोधन करने के लिए कतिपय मसौदा नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 20 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 82 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 24 मई, 2009 में इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से भारत के जिस राजपत्र में उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गयी हो उसकी प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराये जाने की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने तक आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां आम जनता को 13 सितम्बर, 2008 को उपलब्ध करवा दी गयी थी;

और जबकि सरकार द्वारा उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :-

(1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (संशोधन) नियमावली, 2009 कहा जाएगा ।

(2) वे 1 सितम्बर, 2009 से प्रभावी होंगे ।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में, नियम 59 में, “तीन हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “पांच हजार रुपये” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[फा. संख्या एस-38012/1/2009-एसएस-1]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 दिनांक 22 जून, 1950 के तहत प्रकाशित तथा बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. सा.का.नि. 80 दिनांक 9-1-1960 | 19. सा.का.नि. 76 दिनांक 22-1-1991 |
| 2. सा.का.नि. 1200 दिनांक 27-9-1960 | 20. सा.का.नि. 368 दिनांक 27-3-1992 |
| 3. सा.का.नि. 594 दिनांक 29-3-1963 | 21. सा.का.नि. 522 दिनांक 16-11-1996 |
| 4. सा.का.नि. 240 दिनांक 6-2-1964 | 22. सा.का.नि. 582(अ) दिनांक 23-12-1996 |
| 5. सा.का.नि. 1834 दिनांक 18-12-1964 | 23. सा.का.नि. 225 दिनांक 21-4-1997 |
| 6. सा.का.नि. 474 दिनांक 19-3-1965 | 24. सा.का.नि. 226 दिनांक 22-4-1997 |
| 7. सा.का.नि. 1082 दिनांक 29-6-1966 | 25. सा.का.नि. 185 दिनांक 1-9-1998 |
| 8. सा.का.नि. 545 दिनांक 14-4-1967 | 26. सा.का.नि. 129 दिनांक 29-3-2000 |
| 9. सा.का.नि. 500 दिनांक 6-3-1968 | 27. सा.का.नि. 210 दिनांक 27-3-2001 |
| 10. सा.का.नि. 677 दिनांक 29-3-1968 | 28. सा.का.नि. 28 दिनांक 2-1-2004 |
| 11. सा.का.नि. 1106 दिनांक 22-5-1968 | 29. सा.का.नि. 172(अ) दिनांक 4-3-2004 |
| 12. सा.का.नि. 2113 दिनांक 28-11-1968 | 30. सा.का.नि. 316 दिनांक 18-9-2004 |
| 13. सा.का.नि. 306 दिनांक 7-3-1974 | 31. सा.का.नि. 322(अ) दिनांक 17-5-2005 |
| 14. सा.का.नि. 1122 दिनांक 1-10-1974 | 32. सा.का.नि. 591(अ) दिनांक 22-9-2006 |
| 15. सा.का.नि. 56 दिनांक 23-12-1976 | 33. सा.का.नि. 465(अ) दिनांक 4-7-2007 |
| 16. सा.का.नि. 60 दिनांक 5-1-1982 | 34. सा.का.नि. 685(अ) दिनांक 31-10-2007 |
| 17. सा.का.नि. 129 दिनांक 9-2-1987 | 35. सा.का.नि. 254(अ) दिनांक 31-3-2008 |
| 18. सा.का.नि. 199 दिनांक 6-3-1990 | 36. सा.का.नि. 207(अ) दिनांक 27-11-2008 |

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 14th September, 2009

G.S.R. 136.—Where as certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published as required under sub-section (1) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. G.S.R. 82, dated the 20th May, 2009, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 24th May, 2009 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 24th May, 2009;

And whereas objections and suggestions received from persons likely to be affected thereby have been considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 95 of the said Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central), Rules, 1950, namely :—

1. These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) (Amendment) Rules, 2009.
2. They shall be deemed to have come into force from the 1st September, 2009.
3. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in Rule 59, for the words "three thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

[F. No. S-38012/1/2009-SS-I]

S. D. XAVIER, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number SRO 212, dated the 22nd June, 1950 and subsequently amended vide the following notifications :—

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. G.S.R. No. 80, dated 09-01-1960 | 19. G.S.R. No. 76, dated 22-01-1991 |
| 2. G.S.R. No. 1200, dated 27-09-1960 | 20. G.S.R. No. 368, dated 27-03-1992 |
| 3. G.S.R. No. 594, dated 29-03-1963 | 21. G.S.R. No. 522, dated 16-11-1996 |
| 4. G.S.R. No. 240, dated 06-02-1964 | 22. G.S.R. No. 582(E), dated 23-12-1996 |
| 5. G.S.R. No. 1834, dated 18-12-1964 | 23. G.S.R. No. 225, dated 21-04-1997 |
| 6. G.S.R. No. 474, dated 19-03-1965 | 24. G.S.R. No. 226, dated 22-04-1997 |
| 7. G.S.R. No. 1082, dated 29-06-1966 | 25. G.S.R. No. 185, dated 01-09-1998 |
| 8. G.S.R. No. 545, dated 14-04-1967 | 26. G.S.R. No. 129, dated 29-03-2000 |
| 9. G.S.R. No. 500, dated 06-03-1968 | 27. G.S.R. No. 210, dated 27-03-2001 |
| 10. G.S.R. No. 677, dated 29-03-1968 | 28. G.S.R. No. 28, dated 02-01-2004 |
| 11. G.S.R. No. 1106, dated 22-05-1968 | 29. G.S.R. No. 172(E), dated 04-03-2004 |
| 12. G.S.R. No. 2113, dated 28-11-1968 | 30. G.S.R. No. 316, dated 18-09-2004 |
| 13. G.S.R. No. 306, dated 07-03-1974 | 31. G.S.R. No. 322(E), dated 17-05-2005 |
| 14. G.S.R. No. 1122, dated 01-10-1974 | 32. G.S.R. No. 591 (E), dated 22-09-2006 |
| 15. G.S.R. No. 56, dated 23-12-1976 | 33. G.S.R. No. 465(E), dated 04-07-2007 |
| 16. G.S.R. No. 60, dated 05-01-1982 | 34. G.S.R. No. 685(E), dated 31-10-2007 |
| 17. G.S.R. No. 129, dated 09-02-1987 | 35. G.S.R. No. 254(E), dated 31-03-2008 |
| 18. G.S.R. No. 199, dated 06-03-1990 | 36. G.S.R. No. 207(E), dated 27-11-2008 |

32519709-4

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 137.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 की उप-धारा (2) के खण्ड (क), (ख) तथा (ज) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा निबंधन और शर्तें) नियम, 1974 में परवर्ती संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2009 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम 4 में संशोधन.—दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा निबंधन और शर्तें) नियम, 1974 के नियम 4 में :—
 - (i) उप नियम (1) में “सात हजार रुपये” शब्दों के लिए “दस हजार रुपये” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
 - (ii) उप नियम (2) में “पांच सौ रुपये” शब्दों के लिए “छः सौ पच्चीस रुपये” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा. संख्या ए-11013/2/2009-डीडी।ए]

एन. टी. जोसफ, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम, दिनांक 27 अप्रैल, 1974 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 191(अ) के तहत प्रकाशित हुए थे और उसके बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किये गये :—

- | | |
|---|---|
| 1. सा.का.नि. 1251, दिनांक 14 नवम्बर, 1974 | 6. सा.का.नि. 265, दिनांक 14 मार्च, 1989 |
| 2. सा.का.नि. 925, दिनांक 3 जुलाई, 1975 | 7. सा.का.नि. 563, दिनांक 26 अक्टूबर, 1993 |
| 3. सा.का.नि. 614, दिनांक 2 अप्रैल, 1979 | 8. सा.का.नि. 24, दिनांक 27 जनवरी, 1998 |
| 4. सा.का.नि. 814, दिनांक 10 सितम्बर, 1982 | 9. सा.का.नि. 66, दिनांक 13 फरवरी, 2004 |
| 5. सा.का.नि. 41, दिनांक 9 नवम्बर, 1984 | 10. सा.का.नि. 277, दिनांक 29 जुलाई, 2005 |

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 16th September, 2009

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), read with clauses (a), (b) and (h) of sub-section (2) of that section, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Delhi Urban Art Commission (Terms and Conditions of Service) Rules, 1974, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Urban Art Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the Delhi Urban Art Commission (Terms and Conditions of Service) Rules, 1974,—
 - (i) in sub-rule (1), for the words “rupees seven thousand”, the words “rupees ten thousand” shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (2), for the words “rupees five hundred”, the words “rupees six hundred and twenty five” shall be substituted.

[F. No. A-11013/2/2009-DDIA]

N. T. JOSEPH, Under Secy.

Foot Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 191(E), dated the 27th April, 1974 and subsequently amended vide number,—

- | | |
|--|--|
| 1. GSR 1251, dated the 14th November, 1974 | 6. GSR 265, dated the 14th March, 1989 |
| 2. GSR 925, dated the 3rd July, 1975 | 7. GSR 563, dated the 26th October, 1993 |
| 3. GSR 614, dated the 2nd April, 1979 | 8. GSR 24, dated the 27th January, 1998 |
| 4. GSR 814, dated the 10th September, 1982 | 9. GSR 66, dated the 13th February, 2004 |
| 5. GSR 41, dated the 9th November, 1984 | 10. GSR 277, dated the 29th July, 2005. |